



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 20, 2012/पौष 30, 1933

No. 117]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 20, 2012/PAUSA 30, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2012

का.आ. 127(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर नगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 86 के 7.450 कि मी. से 62.300 कि मी. तक के भूखण्ड (कानपुर-हमीरपुर सेक्शन) के निर्माण (चोड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अपर जिला मजिस्ट्रेट, (भूमि अध्याप्ति), कानपुर नगर, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात्, तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 86 के 7.450 कि.मी. से 62.300 कि.मी. तक (कानपुर—हमीरपुर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल	
							(वर्ग मीटर में)	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	कानपुर नगर	1. कानपुर नगर	(1) उरियाला	141	सरकारी	बंजर	200.000	0.020
				142	सरकारी	आबादी	410.000	0.0410
				143/1	निजी	कृषिक	250.000	0.0250
				143/2	निजी	कृषिक	200 000	0.0200
				41	सरकारी	चारागाह	750 000	0.0750
			(2) खिरसा	429	सरकारी	ग्राम समाज	30.983	0.0031
				166	सरकारी	खेती फार्म	47.547	0.0048
				165	नोज़ल	नोज़ल	984.099	0.0984
			(3) कठेरुवा	198	निजी	खेती	538.871	0.0539
				197	निजी	खेती	146.232	0.0146
			(4) हडहा	220	निजी	खेती	362 898	0.0363
			(5) शम्भुआ	1845	निजी	खेती	415 874	0.0416
				1842	सरकारी	बंजर (ग्राम समाज)	157.081	0.0157
				1657	निजी	खेती	342.996	0.0343
				1532	सरकारी	ग्राम समाज	65.579	0.0066
				1402	सरकारी	ग्राम समाज	648.973	0.0649
				1446	नोज़ल	नोज़ल	536.209	0.0536
		2. घाटमपुर	(1) धरमपुर	3	सरकारी	ग्राम समाज	1360.487	0.1360
			(2) पतारा	1976	निजी	खेती	458.795	0.0459
				1949	सरकारी	नेहरू विद्यापीठ पतारा	114 734	0.0115
				1983	निजी	खेती	62 348	0.0062

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			(3) जहांगीराबाद	523	सरकारी	जुनियर हाई स्कूल (ग्राम समाज)	153.766	0.0154
				520	सरकारी	खलितान (ग्राम समाज)	114.187	0.0114
			(4) स्यादी ललईपुर	415	सरकारी	नाली	83.468	0.0083
				418	निजी	खेती	57.869	0.0058
				477	सरकारी	चकरोड़	81.562	0.0082
				482	निजी	खेती	135.585	0.0136
				485	निजी	खेती	217.287	0.0217
				484	सरकारी	चकरोड़	48.525	0.0049
			(5) गुजेला	979	निजी	खेती	28.713	0.0029
				978	सरकारी	बजार	10.876	0.0011
				977	सरकारी	बजार	104.668	0.0105
				961	निजी	खेती	1498.686	0.1499
				959	निजी	खेती	617.332	0.0617
				949	निजी	खेती	4397.511	0.4398
				812	निजी	खेती	117.871	0.0118
				813	निजी	खेती	98.488	0.0098
				923	निजी	खेती	1045.092	0.1045
				921	निजी	खेती	222.977	0.0223
				920	निजी	खेती	1254.585	0.1255
				919	निजी	खेती	159.147	0.0159
				918	निजी	खेती	36.614	0.0037
				903	निजी	खेती	54.299	0.0054
				902	निजी	खेती	21.486	0.0021
			(6) जल्ला	18	निजी	खेती	674.432	0.0674
				24	निजी	खेती	843.833	0.0844
				23	निजी	खेती	3254.839	0.3255

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				29	निजी	खेती	52.498	0.0052
				347	निजी	खेती	377.089	0.0377
				372	निजी	खेती	54.230	0.0054
			(7) सजेती	189	आबादी (ग्राम समाज)	आबादी (ग्राम समाज)	169.524	0.0170
				191	निजी	खेती	813.924	0.0814
				192	सरकारी	नवीन परती (ग्राम समाज)	71.489	0.0071
				197	सरकारी	पुलिस स्टेशन	192.335	0.0192
				198	निजी	खेती	210.545	0.0211
				212	सरकारी	तालाब व बंजर (ग्राम समाज)	166.517	0.0167
				221	सरकारी	बंजर (ग्राम समाज)	192.655	0.0193
				225	निजी	खेती	95.284	0.0095
			(8) आनूपुर	72	निजी	खेती	374.851	0.0375
				71	निजी	खेती	854.303	0.0854
			(9) बीबीपुर	1554	निजी	खेती	987.842	0.0988
			(10) रामपुर	401	निजी	खेती	303.389	0.0303
				402	निजी	खेती	1009.316	0.1009
				4	निजी	खेती	185.332	0.0185
				6	निजी	खेती	915.779	0.0916
				20	निजी	खेती	884.774	0.0885
				21	निजी	खेती	227.820	0.0228
				401	निजी	खेती	303.389	0.0303
				402	निजी	खेती	1009.316	0.1009
				406	निजी	खेती	1298.750	0.1299
				413	निजी	खेती	170.099	0.0170
							34338.454	3.4339

[फा. सं. भारासप्रा/11013/पन्नाए/नोटिफ./2011/पीआईयू-कानपुर]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th January, 2012

S.O. 127(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the publish purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/ four- laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 86 on the stretch of land from Km. 7.450 to Km. 62.300 (Kanpur- Hamirpur Section) in District Kanpur Nagar in the State of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object of the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Additional District Magistrate (Land Acquisition), Kanpur Nagar, in writing, and shall set out the grounds there of and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final; and

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

203 GI/12-2

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from km 7.450 to km 62.300 (Kanpur- Hamirpur Section) of the National Highway No. 86 in the State of Uttar Pradesh.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area	
							(in square meters)	(in hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Kanpur Nagar	1. Kanpur Nagar	(1) Uriyara	141	Govt.	Banjar	200.0000	0.0200
				142	Govt.	Aawadi	410.0000	0.0410
				143/1	Private	Agriculture	250.0000	0.0250
				143/2	Private	Agriculture	200.0000	0.0200
				41	Govt.	Charagah	750 0000	0.0750
			(2) Khera	429	Govt.	Gram Samaj	30 9830	0.0031
				166	Govt.	Agriculture Farm	47.5470	0.0048
				165	Non Zamindari Avolution	Non Zamindari Avolution	984.0990	0.0984
			(3) Katherua	198	Private	Agriculture	538.8710	0.0539
				197	Private	Agriculture	146.2320	0.0146
			(4) Haraha	220	Private	Agriculture	362.8980	0.0363
			(5) Shambhua	1845	Private	Agriculture	415.874	0.0416
				1842	Govt.	Barren (Gram Samaj)	157.0810	0.0157
				1657	Private	Agriculture	342.9960	0.0343
				1532	Govt.	Gram Samaj	65.5790	0.0066
				1402	Govt.	Gram Samaj	648 9730	0.0649
				1446	Non Zamindari Avolution	Non Zamindari Avolution	536.2090	0.0536
		2. Ghatampur	(1) Dharampur	3	Govt.	Gram Samaj	1360.4870	0.1360
			(2) Patara	1976	Private	Agriculture	458.7950	0.0459
				1949	Govt.	Nehru Vidyapeeth Patara	114.7340	0.0115
				1983	Private	Agriculture	62.3480	0.0062
			(3) Jahangirabad	523	Govt.	Junior High School (Gram Samaj)	153.7660	0.0154

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				520	Govt.	Khakihan (Gram Samaj)	114.1870	0.0114
			(4) Syodi	415	Govt.	Nali	83.4680	0.0083
			Lalaipur	418	Private	Agriculture	57.8690	0.0058
				477	Govt.	Chak Road	81.5620	0.0082
				482	Private	Agriculture	135.5850	0.0136
				485	Private	Agriculture	217.2870	0.0217
				484	Govt.	Chak Road	48.5250	0.0049
			(5) Gujela	979	Private	Agriculture	28.7130	0.0039
				978	Govt.	Barren	10.8760	0.0011
				977	Govt.	Barren	104.6680	0.0105
				961	Private	Agriculture	1498.6860	0.1499
				959	Private	Agriculture	617.3320	0.0617
				949	Private	Agriculture	4397.5110	0.4398
				812	Private	Agriculture	117.8710	0.0118
				813	Private	Agriculture	98.4880	0.0098
				923	Private	Agriculture	1045.0920	0.1045
				921	Private	Agriculture	222.9770	0.0223
				920	Private	Agriculture	1254.5850	0.1255
				919	Private	Agriculture	159.1470	0.0159
				918	Private	Agriculture	36.6140	0.0037
				903	Private	Agriculture	54.2990	0.0054
				902	Private	Agriculture	21.4860	0.0021
			(6) Jalla	18	Private	Agriculture	674.4320	0.0674
				24	Private	Agriculture	843.8330	0.0844
				23	Private	Agriculture	3254.8390	0.3255
				29	Private	Agriculture	52.4980	0.0052
				347	Private	Agriculture	377.0890	0.0377
				372	Private	Agriculture	54.2300	0.0054
			(7) Sajeti	189	Aawadi (Gram Samaj)	Aawadi (Gram Samaj)	169.5240	0.0170
				191	Private	Agriculture	813.9243	0.0814
				192	Govt.	Navin Patti (Gram Samaj)	71.4890	0.0071
				197		Police Station	192.3350	0.0192
				198	Private	Agriculture	210.5450	0.0211
				212	Govt.	Pond & Barren (Gram Samaj)	166.5170	0.0167
				221	Govt.	Barren (Gram Samaj)	192.6550	0.0193

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				225	Private	Agriculture	95.2840	0.0095
			(8) Anupur	72	Private	Agriculture	374.8510	0.0375
				71	Private	Agriculture	854.3030	0.0854
			(9) Bibipur	1554	Private	Agriculture	987.8420	0.0988
			(10) Rampur	401	Private	Agriculture	303.3890	0.0303
				402	Private	Agriculture	1009.3160	0.1009
				4	Private	Agriculture	185.3320	0.0185
				6	Private	Agriculture	915.7790	0.0916
				20	Private	Agriculture	884.7740	0.0885
				21	Private	Agriculture	227.8200	0.0228
				401	Private	Agriculture	303.3890	0.0303
				402	Private	Agriculture	1009.3160	0.1009
				406	Private	Agriculture	1298.7500	0.1299
				413	Private	Agriculture	170.0990	0.0170
							34338.4543	3.43490

[F. No. NHAI/11013/LA/Notif./2011/PIU-Kanpur]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.